

NOKIA

Nokia C32

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वषिय सूची

1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में	5
2 शुरू करें	6
अपने फ़ोन को अद्यतित रखें	6
कुंजियाँ और पुरजे	6
SIM और मेमोरी कार्ड डालना	7
अपना फ़ोन चार्ज करें	8
फ़ोन चालू करें और उसे सेट अप करें	9
टच स्क्रीन का उपयोग करें	10
3 अपना फ़ोन सुरक्षित रखें	14
अपना फ़ोन लॉक या अनलॉक करें	14
स्क्रीन लॉक से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें	14
अपने फ़ोन को अपने फ़िंगरप्रिंट से सुरक्षित करें	14
अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपने फ़ोन को सुरक्षित रखना	15
अपने खोए हुए फ़ोन को खोजें	16
4 बुनियादी तथ्य	17
अपना फ़ोन वैयक्तिकृत करें	17
नोटफिकेशन	17
वॉल्यूम नियंत्रित करें	18
स्वचालित लेख सुधार	19
बैटरी लाइफ़	19
वर्चुअल RAM की मदद से अपने फ़ोन की मेमोरी बढ़ाएँ	20
एक्सेस योग्यता	21
5 अपने मत्तियों और परिवार के साथ कनेक्ट करें	22
कॉल	22
संपर्क	22
संदेश भेजें	23
मेल	23

6 कैमरा	24
कैमरे से संबंधित बुनियादी बातें	24
आपके फ़ोटो और वीडियो	24
7 इंटरनेट और कनेक्शन	26
वाई-फ़ाई सक्रिय करें	26
वेब ब्राउज़ करें	26
Bluetooth®	27
VPN	28
8 अपना दिन व्यवस्थित करें	29
दिनांक और समय	29
अलार्म घड़ी	29
कैलेंडर	30
9 मानचित्र	31
स्थान ढूंढें और दिशानिर्देश प्राप्त करें	31
10 ऐप, अद्यतन और बैकअप	32
Google Play से ऐप प्राप्त करें	32
अपना फ़ोन सॉफ़्टवेयर अपडेट करें	32
अपने डेटा का बैकअप लें	32
मूल सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें और अपने फ़ोन से नज़ी सामग्री हटाएं	33
11 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी	34
आपकी सुरक्षा के लिए	34
नेटवर्क सेवाएं और लागतें	36
आपातकालीन कॉल	37
अपने डेविडस का ध्यान रखें	37
रीसाइकल करना	38
ऐसे डब्लिबे वाला प्रतीक जसिमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है	39

बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी	39
छोटे बच्चे	40
चकित्सा उपकरण	41
प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण	41
सुनने की क्षमता	41
अपने डेटा की हानिकारक सामग्री से सुरक्षा करें	41
वाहन	42
संभावित रूप से वसिफोटक जगहें	42
प्रमाणन जानकारी	42
डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में	43
कॉपीराइट और अन्य नोटिस	43

1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में



महत्वपूर्ण: अपने डविइस और बैटरी के सुरक्षित उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, डविइस को उपयोग में लाने से पहले "उत्पाद और सुरक्षा जानकारी" पढ़ें। अपने नए डविइस के साथ आरंभ करने का तरीका जानने के लिए, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

2 शुरू करें


अपने फ़ोन को अद्यतति रखें

आपके फ़ोन का सॉफ़्टवेयर

अपना फ़ोन अद्यतति रखें और उपलब्ध सॉफ़्टवेयर अपडेट स्वीकार करें ताकि आपको अपने फ़ोन के लिए नई ओर बेहतर सुविधाएँ मिल सकें. सॉफ़्टवेयर अपडेट करने से फ़ोन के प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है.

कुंजियाँ और पुरजे

आपका फ़ोन



यह उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका निम्न मॉडल पर लागू होती है: TA-1534, TA-1558, TA-1542, TA-1548.

1. माइक्रोफ़ोन
2. लाउडस्पीकर
3. फ्लैश
4. कैमरा
5. SIM और मेमोरी कार्ड स्लॉट
6. फ्रंट कैमरा
7. हेडसेट कनेक्टर
8. ईयरपीस
9. वॉल्यूम कुंजियाँ
10. पावर/लॉक कुंजी, फ़िंगरप्रिंट सेंसर
11. USB कनेक्टर

Nokia C32 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में उल्लिखित कुछ एक्सेसरीज, जैसे कि चार्जर, हेडसेट या डेटा केबल अलग से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।


पार्ट और कनेक्टर, चुंबकत्व

सिग्नल उत्पन्न करने वाले प्रोडक्ट कनेक्ट न करें, क्योंकि इससे डेटा को क्षति पहुंच सकती है। ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज वाला स्रोत कनेक्ट न करें। अगर आप ऑडियो कनेक्टर में, इस डेटा के साथ इस्तेमाल के लिए स्वीकृत की गई चीजों के अलावा कोई बाह्य डेटा या हेडसेट कनेक्ट करते/करती हैं, तो वॉल्यूम के स्तर पर ख़ास ध्यान दें।

डेटा के पुर्जे चुंबकीय हैं। धातु वाले मटेरियल इस डेटा की ओर आकर्षित हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या चुंबकीय पट्टी वाले अन्य कार्ड लंबे समय तक उपकरण के नजदीक न रखें, क्योंकि इससे आपके कार्ड खराब हो सकते हैं।

SIM और मेमोरी कार्ड डालना

कार्ड डालना



1. SIM और मेमोरी कार्ड का ट्रे खोलें: ट्रे के छद्म में ट्रे खोलने वाला पिन घुसाएं और ट्रे को बाहर की ओर खसिकाएं।
2. नैनो-SIM को ट्रे में मौजूद SIM स्लॉट में इस तरह डालें कि उसके संपर्क क्षेत्र का रुख नीचे की तरफ हो।
3. यदि आपके पास ड्यूल-SIM फ़ोन है, तो दूसरी SIM को SIM2 स्लॉट में रखें।
4. यदि आपके पास मेमोरी कार्ड है, तो इसे मेमोरी कार्ड स्लॉट में रखें।
5. ट्रे को वापस अंदर खसिकाएं।

असली नैनो-SIM कार्ड का उपयोग करें। असंगत SIM कार्ड के उपयोग से कार्ड या डेटा को नुकसान हो सकता है और कार्ड पर संग्रहीत डेटा खराब हो सकता है।

Nokia C32 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

जब डविाइस का उपयोग न किया जा रहा हो, तब दोनों SIM कार्ड एक ही समय पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब एक SIM कार्ड सक्रिय हो, उदाहरण के लिए, कॉल करते समय, तब दूसरा वाला उपलब्ध नहीं होगा।

केवल इस डविाइस के लिए उपयुक्त और स्वीकृत मेमोरी कार्ड का उपयोग करें। असंगत कार्ड्स के कारण कार्ड और डविाइस को नुकसान पहुंच सकता है और कार्ड में संग्रहित डेटा खराब हो सकता है।



सुझाव: यह जानने के लिए कि क्या आपका फ़ोन 2 समि कार्ड का उपयोग कर सकता है, बकिरी बॉक्स पर लेबल देखें। यदि लेबल पर 2 IMEI कोड मौजूद हैं, तो आपके पास ड्यूल-समि फ़ोन है।



महत्वपूर्ण: जब कोई ऐप मेमोरी कार्ड का उपयोग कर रहा हो तो उसे न निकालें। ऐसा करने से मेमोरी कार्ड और डविाइस को नुकसान हो सकता है तथा कार्ड पर संग्रहीत डेटा भी दूषित हो सकता है।



सुझाव: किसी प्रसिद्ध निर्माता का 256 जीबी तक का तेज माइक्रोएसडी मेमोरी कार्ड उपयोग करें।



नोट: पूर्व-स्थापित सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऐप्स मेमोरी स्पेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपयोग करते हैं।

अपना फ़ोन चार्ज करें

बैटरी चार्ज करें



1. दीवार पर लगे पावर आउटलेट में एक संगत चार्जर लगाएं।
2. केबल अपने फ़ोन से कनेक्ट करें।

आपका फ़ोन USB-C केबल को सहायक है। आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से USB केबल के ज़रिये भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा।

यदि बैटरी पूरी तरह से डिसचार्ज हो चुकी है, तो चार्जिंग संकेतक के प्रदर्शित होने में कई मिनट लग सकते हैं।

चार्जर मॉडल

अपने डविाइस को AD-010 चार्जर का उपयोग करके चार्ज करें। HMD Global इस डविाइस के लिए अतिरिक्त बैटरी या चार्जर मॉडल उपलब्ध करा सकता है। चार्ज करने का समय, उपकरण की क्षमता पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकता है। इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में उल्लिखित कुछ एक्सेसरीज़, जैसे कि चार्जर, हेडसेट या डेटा केबल अलग से बकिरी के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

Nokia C32 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

जब चार्जर बकिरी बॉक्स में शामिल न किया गया हो, तो डेटा केबल (शामलि) और एक USB पावर एडॉप्टर (अलग से बेचा जा सकता है) का उपयोग करके अपने डविइस को चार्ज करें. आप अपने डविइस को ऐसे तृतीय-पक्ष केबल और पावर एडॉप्टर के साथ चार्ज कर सकते हैं, जो USB 2.0 या बाद के संस्करण के साथ और लागू देश के नयिमों और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो. हो सकता है कि अन्य एडॉप्टर लागू सुरक्षा मानकों को पूरा न करते हों, और ऐसे एडॉप्टर से चार्ज करने से संपत्तिका नुकसान या किसी को चोट लगने का खतरा हो सकता है. आपके डविइस की चार्जिंग अनुकूलति करने के लिए 100-240V~50/60Hz 0.5A इनपुट और 5.0V/2A आउटपुट वाले पावर एडॉप्टर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है.

फ़ोन चालू करें और उसे सेट अप करें

अपना फ़ोन चालू करें

जब आप अपना फ़ोन पहली बार चालू करते हैं, तो फ़ोन आपको अपने नेटवर्क कनेक्शन और फ़ोन सेटिंग सेट अप करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है.

1. पावर कुंजी दबाए रखें.
2. अपनी भाषा और क्षेत्र चुनें.
3. आपके फ़ोन पर दिखाए जाने वाले नरिदेशों का पालन करें.

अपने पछिले फ़ोन से डेटा ट्रांसफ़र करें

आप अपने Google खाते का उपयोग करके किसी पुराने फ़ोन से अपने नए फ़ोन में डेटा स्थानांतरति कर सकते हैं.

अपने पुराने फ़ोन के डेटा का Google खाते पर बैक अप लेने के लिए, अपने पुराने फ़ोन की उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें.

अपने पछिले Android™ फ़ोन की ऐप सेटिंग पुनरस्थापति करें

यदि आपका पछिला फ़ोन Android था और आपने इससे अपने Google खाते पर डेटा का बैक अप लेने की सुवधि सेट कर रखी थी, तो आप अपनी ऐप सेटिंग और पासवर्ड पुनरस्थापति कर सकते हैं.

1. **सेटिंग** > **पासवर्ड और खाते** > **खाता जोड़ें** > **Google** पर टैप करें.
2. वह डेटा चुनें, जसि आप अपने नए फ़ोन पर पुनरस्थापति करना चाहते हैं. जैसे ही आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट होगा, समन्वयन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी.

अपना फ़ोन बंद करें

अपने फ़ोन को बंद करने के लिए, पावर कुंजी और वॉल्यूम अप कुंजी को एक साथ दबाएं और **पावर बंद** चुनें.



संझाव: अगर आप पावर कुंजी को दबाकर और अपने फ़ोन को बंद करना चाहते हैं, तो **सेटिंग > सिस्टम > जेस्चर > पावर बटन को दबाकर रखें** और **Assistant के लिए दबाए रखकर चालू करने को बंद करें** पर टैप करें.

टच स्क्रीन का उपयोग करें


महत्वपूर्ण: टच स्क्रीन को खरोंच लगने से बचाएँ. टच स्क्रीन पर कभी भी वास्तविक पेन, पेंसिल या अन्य नुकीली चीज़ का उपयोग न करें.

किसी आइटम को खींचने के लिए टैप और होल्ड करें




अपनी अंगुली को आइटम पर कुछ सेकंड तक रखें और फिर अपनी अंगुली को स्क्रीन के एक से दूसरे सरि की ओर सरकाएं.

स्वाइप करें




अपनी अंगुली स्क्रीन पर रखें और उसे अपनी मनचाही दशा में स्लाइड करें.

किसी लंबी सूची या मेनू को स्क्रॉल करें



अपनी अंगुली को स्क्रीन पर तेज़ी से ऊपर या नीचे स्लाइड करें और अपनी अंगुली ऊपर उठा लें. स्क्रॉलिंग बंद करने के लिए, स्क्रीन पर टैप करें.

जूम इन या आउट करें



मानचित्र, फ़ोटो या वेब पृष्ठ जैसे किसी आइटम पर 2 अंगुलियां रखें और अपनी अंगुलियों को अलग-अलग दशा में या एक साथ स्लाइड करें।

स्क्रीन अभिविन्यास लॉक करें

जब आप अपने फ़ोन को 90 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं, तो स्क्रीन अपने आप घूम जाती है।

स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड में लॉक करने के लिए स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर स्वाइप करें और **स्वतः घुमाएं** > **बंद** पर टैप करें।

जेस्चर का उपयोग करके नेवगिट करें

जेस्चर नेवगिशन का उपयोग करके चालू पर स्वचि करने के लिए, **सेटिंग** > **सस्टिम** > **जेस्चर** > **सस्टिम नेवगिशन** > **जेस्चर नेवगिशन** पर टैप करें।

- अपने सभी ऐप देखने के लिए, होम स्क्रीन पर, स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें।
- होम स्क्रीन पर जाने के लिए, स्क्रीन के नचिले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें। आप जिस ऐप पर थे वह पृष्ठभूमि में खुला रहेगा।
- आपके पास कौन से ऐप खुले हैं, यह देखने के लिए स्क्रीन के नचिले भाग से ऊपर की ओर अपनी उंगली को उठाए बिना स्वाइप करें, जब तक आप ऐप नहीं देखते हैं और फिर अपनी उंगली छोड़ दें। किसी अन्य खुले ऐप पर स्वचि करने के लिए, ऐप पर टैप करें। चल रहे सभी ऐप बंद करने के लिए, सभी ऐप को ऊपर स्वाइप करें और **सभी मटाएं** पर टैप करें।

Nokia C32 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

- पछिली स्क्रीन पर वापस जाने के लिए आप स्क्रीन के दाएं या बाएं कनारे से स्वाइप करें. आपका फ़ोन पछिली बार आपकी स्क्रीन लॉक होने से ले कर अब तक आपके द्वारा देखे गए सभी ऐप्स और वेबसाइटों को याद रखता है.

कुंजियों का उपयोग करके नेवगिट करें

नेवगिशन कुंजियाँ चालू पर स्वचि करने के लिए, सेटिंग > सस्टिम > जेस्चर > सस्टिम नेवगिशन > 3-बटन नेवगिशन पर टैप करें.

- अपने सभी ऐप देखने के लिए, होम स्क्रीन पर, स्क्रीन के नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करें.
- होम स्क्रीन पर जाने के लिए, ● पर टैप करें. आप जिस ऐप पर थे वह पृष्ठभूमि में खुला रहेगा.
- यह देखने के लिए कि आपके कौन-कौन से ऐप खुले हुए हैं, ■ पर टैप करें. किसी अन्य खुले ऐप पर स्वचि करने के लिए, दाएँ स्वाइप करें और ऐप को टैप करें. चल रहे सभी ऐप बंद करने के लिए, सभी ऐप को ऊपर स्वाइप करें और सभी मटाएं पर टैप करें.
- आप पहले जिस स्क्रीन पर थे उस पर वापस जाने के लिए, ◀ पर टैप करें. आपका फ़ोन पछिली बार आपकी स्क्रीन लॉक होने से ले कर अब तक आपके द्वारा देखे गए सभी ऐप्स और वेबसाइटों को याद रखता है.

3 अपना फ़ोन सुरक्षित रखें

अपना फ़ोन लॉक या अनलॉक करें

अपना फ़ोन लॉक करें

यदि आप नहीं चाहते कि जब आपका फ़ोन आपकी जेब या बैग में हो, तब गलती से कॉल हो जाए, तो आप अपनी कुंजियां और स्क्रीन लॉक कर सकते हैं।

अपनी कुंजियां और स्क्रीन लॉक करने के लिए, पावर कुंजी दबाएं।

कुंजियां और स्क्रीन अनलॉक करें

पावर कुंजी दबाएं और स्क्रीन पर ऊपर की तरफ़ स्वाइप करें। मांगे जाने पर, अतिरिक्त क्रेडेंशियल प्रदान करें।

स्क्रीन लॉक से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें

आप स्क्रीन अनलॉक करते समय अपने फ़ोन को प्रमाणीकरण का अनुरोध करने के लिए सेट कर सकते हैं।

एक स्क्रीन लॉक सेट करें

1. **सेटिंग** > **सुरक्षा** > **स्क्रीन लॉक** पर टैप करें।
2. लॉक का प्रकार चुनें और अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें।

अपने फ़ोन को अपने फ़िंगरप्रिंट से सुरक्षित करें

फ़िंगरप्रिंट जोड़ें

1. **सेटिंग** > **सुरक्षा** > **अंगुली की छाप** टैप करें।
2. वह बैकअप अनलॉक विधि चुनें, जिसका उपयोग आप लॉक स्क्रीन के लिए करना चाहते हैं और अपने फ़ोन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें।


अपने फ़ोन को अपनी उंगली से अनलॉक करें

अपनी पंजीकृत उंगली पावर कुंजी पर रखें.

यदि कोई अंगुली की छाप सेंसर त्रुटि है, और आप फ़ोन को किसी भी तरह रकिवर या रीसेट करने के लिए वैकल्पिक साइन-इन वधियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपके फ़ोन को अधिकृत कर्मियों द्वारा सर्विस कराने की आवश्यकता होगी. अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के नजदिकतम सेवा केंद्र या अपने फ़ोन डीलर से संपर्क करें.

अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपने फ़ोन को सुरक्षित रखना

चेहरा प्रमाणीकरण सेट अप करें



1. **सेटिंग** > **सुरक्षा** > **चेहरे से अनलॉक** पर टैप करें.
2. वह बैकअप अनलॉक वधियां चुनें, जिसका उपयोग आप लॉक स्क्रीन के लिए करना चाहते हैं और अपने फ़ोन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें.

अपनी आंखें खुली रखें और सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा पूरी तरह से देखा जा सकता है और हैट तथा चश्मे जैसी किसी भी वस्तु से ढका हुआ नहीं है.



नोट: अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए अपने चेहरे का उपयोग करना फ़िंगरप्रिंट, पैटर्न या पासवर्ड का उपयोग करने से कम सुरक्षित होता है. आपके फ़ोन को आपकी तरह देखने वाले व्यक्ति वस्तु द्वारा अनलॉक किया जा सकता है. पीछे की ओर प्रकाश होने पर या बहुत अधिक अंधेरे वातावरण में चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा काम नहीं कर सकती है.

अपने चेहरे से अनलॉक करने की सुविधा के ज़रिए अपना फ़ोन अनलॉक करना

अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए बस स्क्रीन चालू करें और सामने के कैमरे की ओर देखें।

अगर चेहरे की पहचान करने में कोई त्रुटि हो रही है और आप फ़ोन को रिकवरी या रीसेट करने के लिए किसी भी तरीके से साइन-इन की वैकल्पिक विधि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके फ़ोन की सर्वसिगि करानी होगी। अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के लिए नज़दीकी अधिकृत सेवा सुविधा या अपने फ़ोन के डीलर से संपर्क करें।

अपने खोए हुए फ़ोन को खोजें

अपने फ़ोन का पता लगाएं या उसे लॉक करें

अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप उसे दूरस्थ रूप से खोज सकते हैं, लॉक कर सकते हैं या मटिा सकते हैं, अगर आपने Google खाते में साइन इन किया है। Google खाते से संबद्ध फ़ोन के लिए मेरा डविाइस खोजें डफ़िॉल्ट रूप से चालू होता है।

मेरा डविाइस खोजें का उपयोग करने के लिए आपका गुम हुआ फ़ोन यह होना चाहिए:

- चालू किया गया
- Google Play पर दृश्यमान है
- Google खाते में साइन इन किया गया
- स्थान चालू किया गया
- मोबाइल डेटा या वाई-फाई से कनेक्टेड
- मेरा डविाइस खोजें चालू किया गया

जब मेरा डविाइस खोजें आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको फ़ोन का स्थान दिखाई देता है और फ़ोन पर सूचना प्राप्त होती है।

1. इंटरनेट से कनेक्ट किसी कंप्यूटर/टैबलेट या फ़ोन पर android.com/find खोलें और अपने Google खाते में साइन इन करें।
2. अगर आपके पास एक से अधिक फ़ोन हैं, तो स्क्रीन के ऊपरी भाग में गुम हुए फ़ोन पर क्लिक करें।
3. मानचित्र पर, यह देखें कि फ़ोन कहां है। स्थान अनुमानित होता है और हो सकता है कि यह सटीक न हो।

अगर आपका डविाइस नहीं मलि सकता है, तो मेरा डविाइस खोजें उपलब्ध होने पर इसका अंतिम ज्ञात स्थान दिखाएगा। अपने फ़ोन को लॉक करने या मटिाने के लिए, वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

4 बुनियादी तथ्य

अपना फ़ोन वैयक्तिकृत करें

अपना वॉलपेपर बदलें

सेटिंग > वॉलपेपर और शैली पर टैप करें.

अपने फ़ोन की रिंगटोन बदलना


सेटिंग > ध्वनि और कंपन > फ़ोन रिंगटोन SIM1 या फ़ोन रिंगटोन SIM2 पर टैप करें और टोन चुनें.

अपने संदेश की नोटिफ़िकेशन ध्वनि बदलें

सेटिंग > ध्वनि और कंपन > सामान्य सूचना ध्वनि पर टैप करें.

नोटिफ़िकेशन

नोटिफ़िकेशन फलक का उपयोग करें




संदेश या छूटी कॉल जैसे नए नोटिफ़िकेशन प्राप्त होने पर, स्क्रीन के शीर्ष पर मौजूद आइकन दिखाई देते हैं.

नोटिफ़िकेशन के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए, स्क्रीन के शीर्ष से नीचे स्वाइप करें. दृश्य बंद करने के लिए, स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें.

किसी ऐप की नोटिफ़िकेशन सेटिंग बदलने के लिए, सेटिंग > नोटिफ़िकेशन > ऐप सेटिंग > सबसे हाल के > सभी ऐप पर टैप करें और ऐप के नोटिफ़िकेशन को चालू या बंद करें.

त्वरति पहुंच आइटम का उपयोग करें



सुविधाओं को सक्रिय करने के लिए, नोटिफिकेशन पैनल पर मौजूद संबंधित त्वरति पहुंच आइटम पर टैप करें। अधिक आइटम देखने के लिए, मेनू को नीचे की ओर खींचें। इन आइटमों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए या नए आइटम जोड़ने के लिए, ✎ पर टैप करें, किसी आइटम पर टैप करके उसे दबाकर रखें और फिर उसे खींचते हुए किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं।

वॉल्यूम नियंत्रित करें

वॉल्यूम बदलें




यदि आपको शोरगुल वाले परिवेश में अपने फ़ोन की रिंग सुनने में परेशानी हो रही है या कॉल की आवाज़ ज़रूरत से ज्यादा है, तो आप अपने फ़ोन के किनारे स्थित वॉल्यूम कुंजियों का उपयोग करके वॉल्यूम को मनचाहे स्तर पर बदल सकते हैं।

ऐसे उत्पादों के साथ कनेक्ट न करें, जो आउटपुट सिग्नल पैदा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर डिविइस को नुकसान पहुंच सकता है। ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज स्रोत कनेक्ट न करें। यदि आप ऑडियो कनेक्टर के साथ इस डिविइस के साथ उपयोग के लिए अनुमोदित डिविइस या हैडसेट के बजाय कोई बाहरी डिविइस या हैडसेट कनेक्ट करते हैं, तो वॉल्यूम स्तरों पर विशेष ध्यान दें।

मीडिया और ऐप्स का वॉल्यूम बदलें

1. वॉल्यूम स्तर बार देखने के लिए एक वॉल्यूम कुंजी दबाएं।
2. ⋮ पर टैप करें।
3. वॉल्यूम स्तर बार पर स्लाइडर को बाएं या दाएं खींचें।
4. **संपन्न** पर टैप करें।

फ़ोन को मौन पर सेट करें

1. एक वॉल्यूम कुंजी दबाएं।
2.  पर टैप करें।
3. अपने फ़ोन को केवल कंपन पर सेट करने के लिए  पर टैप करें या मौन पर सेट करने के लिए  पर टैप करें।

स्वचालति लेख सुधार

कीबोर्ड और शब्द सुझावों का उपयोग करें

जैसे-जैसे आप लिखते जाते हैं, आपका फ़ोन आपको शब्दों का सुझाव देता जाता है, ताकि आपको अधिक तेज़ी और सटीकता से लिखने में मदद मिले। हो सकता है सभी भाषाओं के लिए शब्द सुझाव उपलब्ध न हों।

जब आप कोई शब्द लिखना शुरू करते हैं, तो आपका फ़ोन संभावित शब्दों का सुझाव देता है। जब सुझाव बार में आपका वांछित शब्द दिखाया जाए, तो उसे चुन लें। और सुझाव देखने के लिए, सुझाव पर टैप करें और दबाकर रखें।

युक्त: यदि सुझाया गया शब्द बोल्ड अक्षरों में चिह्नित है, तो आपका फ़ोन स्वचालति रूप से उसका उपयोग करके उससे आपके द्वारा लिखे गए शब्द को बदल देता है। यदि शब्द गलत है, तो कुछ और सुझाव देखने के लिए शब्द पर टैप करें और दबाकर रखें।



यदि आप नहीं चाहते हैं कि कीबोर्ड लिखने के दौरान शब्दों का सुझाव दे तो पाठ सुधार बंद कर दें। **सेटिंग > ससिटम > भाषाएं और इनपुट > ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड** पर टैप करें। आप जिस कीबोर्ड का सामान्य तौर पर उपयोग करते हैं, उसे चुनें। **लेख सुधार** टैप करें और उन पाठ सुधार वधियों को बंद कर दें जिनका उपयोग आप नहीं करना चाहते हैं।

किसी शब्द को सही करें

यदि आप देखते हैं कि आपने किसी शब्द की वर्तनी गलत लिखी हुई है, तो उस पर टैप करके शब्द को ठीक करने के सुझाव देखें।

वर्तनी परीक्षक बंद करें

सेटिंग > ससिटम > भाषाएं और इनपुट > वर्तनी परीक्षक पर टैप करें और **वर्तनी परीक्षक का उपयोग करें** को बंद करें।

बैटरी लाइफ़

बैटरी लाइफ़ बढ़ाएं

पावर की बचत करने के लिए:

1. बैटरी को हमेशा पूरी तरह चार्ज करें.
2. अनावश्यक ध्वनियों को म्यूट कर दें, जैसे कि स्पर्श करने पर नकिलने वाली ध्वनियाँ. **सेटिंग > ध्वनि और कंपन** पर टैप करें और वे ध्वनियाँ चुनें, जिन्हें आप रखना चाहते हैं.
3. लाउडस्पीकर की जगह वायर्ड हेडफोन का उपयोग करें.
4. फोन स्क्रीन को थोड़े समय के बाद बंद होने के लिए सेट करें. **सेटिंग > प्रदर्शन > स्क्रीन टाइमआउट** पर टैप करें और समय चुनें.
5. **सेटिंग > प्रदर्शन > चमक स्तर** पर टैप करें. चमक समायोजित करने के लिए चमक स्तर के स्लाइडर को खींचें. सुनिश्चित करें कि **अनुकूलनीय रोशनी** बंद है.
6. ऐप्लिकेशन को पृष्ठभूमि में चलने से रोकें.
7. स्थान सेवाओं का सोच-समझकर उपयोग करें: जब आपको स्थान सेवाओं की ज़रूरत न हो, तो उन्हें बंद कर दें. **सेटिंग > स्थान** पर टैप करें और **स्थान का उपयोग करें** स्वचि को बंद करें.
8. नेटवर्क कनेक्शन का सोच-समझकर उपयोग करें: ब्लूटूथ तभी चालू करें, जब उसकी ज़रूरत हो. इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल डेटा कनेक्शन के बजाय वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करें. अपने फोन को उपलब्ध वायरलेस नेटवर्क स्कैन करने से रोकें. **सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > इंटरनेट** पर टैप करें और **वाई-फ़ाई** को बंद करें. यदि आप संगीत सुन रहे हैं या फरि अपने फोन का उपयोग कर रहे हैं और कॉल करना या कॉल प्राप्त करना नहीं चाहते, तो हवाई जहाज मोड चालू कर दें. **सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट** पर टैप करें और **हवाई जहाज मोड** को चालू करें. हवाई जहाज मोड मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन बंद कर देता है और आपके डेटा का वायरलेस सुविधाओं को बंद कर देता है.

वर्चुअल RAM की मदद से अपने फोन की मेमोरी बढ़ाएँ

मेमोरी एक्सटेंशन पर स्वचि करें

अगर आपका फोन वर्चुअल RAM फ़ीचर सपोर्ट करता है, तो आपको बैकग्राउंड में खोलने के लिए ज्यादा ऐप मल्लि सकती है और आप दोनों के बीच बहुत आराम से स्वचि कर सकते हैं. स्वचि करने के फ़ीचर को चालू करने के लिए, **सेटिंग > मेमोरी** पर टैप करें और **मेमोरी एक्सटेंशन** पर स्वचि करें. अगर पूछा जाए, तो जो मेमोरी साइज़ आपको चाहिए उसपर टैप करें.

मेमोरी एक्सटेंशन (वर्चुअल RAM) का उपयोग करने के लिए काफ़ी स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है. स्टोरेज की सुरक्षा के लिए, उपयोग सीमा के 90% तक पहुंचने के बाद मेमोरी एक्सटेंशन स्वचालित रूप से और स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है. ऐसा इसके 4 साल के भारी उपयोग के बाद हो सकता है.

मेमोरी साफ़ करें

बैकग्राउंड में चल रहे अनावश्यक ऐप्स से अपने फोन की मेमोरी को साफ़ करने के लिए, **सेटिंग > मेमोरी > साफ़ करें** पर टैप करें. अगर ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें आप हमेशा बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं और उन्हें क्लीन-अप से बाहर करना चाहते हैं, तो: **सेटिंग > मेमोरी > छोड़ी गई ऐप्स** पर टैप करें और उन ऐप्स पर स्वचि करें जिन्हें आप खुले रखना चाहते हैं.

एक्सेस योग्यता

स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट और आइटम को बड़ा करें

1. सेटिंग > एक्सेस योग्यता > प्रदर्शन आकार और टेक्स्ट पर टैप करें.
2. फ़ॉन्ट का आकार स्लाइडर को तब तक टैप करें, जब तक कि पाठ का आकार आपकी पसंद के अनुसार न हो जाए.
3. प्रदर्शन आकार स्लाइडर को तब तक टैप करें, जब तक कि उसका आकार आपकी पसंद के अनुसार न हो जाए.

5 अपने मंत्रियों और परिवार के साथ कनेक्ट करें

कॉल

एक कॉल करें

1. 📞 पर टैप करें.
2. ☰ पर टैप करें और नंबर लखें, या 📞 पर टैप करें और वह संपर्क चुनें जिससे आप कॉल करना चाहते हैं.
3. 📞 पर टैप करें.

किसी कॉल का उत्तर दें

स्क्रीन अनलॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो **उत्तर दें** पर टैप करें. स्क्रीन लॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो उत्तर देने के लिए ऊपर स्वाइप करें.

कॉल को अस्वीकार करें

स्क्रीन अनलॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो **अस्वीकार करें** पर टैप करें. स्क्रीन लॉक होने पर अगर आपका फ़ोन बजता है, तो कॉल अस्वीकार करने के लिए नीचे स्वाइप करें.

संपर्क

कोई संपर्क जोड़ना

1. **संपर्क** > **+** पर टैप करें.
2. जानकारी भरें.
3. **सहेजें** पर टैप करें.

कॉल इतिहास से कोई संपर्क सहेजें

1. अपना कॉल इतिहास देखने के लिए 📞 > 🕒 पर टैप करें.
2. उस नंबर पर टैप करें, जिससे आप सहेजना चाहते हैं.
3. **संपर्क जोड़ें** पर टैप करें. यदि यह नया संपर्क है, तो संपर्क जानकारी में टाइप करें और **सहेजें** पर टैप करें. यदि यह संपर्क आपकी संपर्क सूची में पहले से है, तो **मौजूदा में जोड़ें** पर टैप करें, संपर्क का चयन करें और **सहेजें** पर टैप करें.

संदेश भेजें

संदेश भेजना

1. **संदेश** पर टैप करें।
2. **चैट प्रारंभ करें** पर टैप करें।
3. कोई प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए **⋮** पर टैप करें, उसका नंबर टाइप करें और **✓** पर टैप करें। अपनी संपर्क सूची से कोई प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए, उसका नाम टाइप करना शुरू करें और उस संपर्क पर टैप करें।
4. अधिक प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए, **⋮** पर टैप करें। सभी प्राप्तकर्ता चुनने के बाद, **अगला** पर टैप करें।
5. लेख संदेश बॉक्स में अपना संदेश लिखें।
6. **▶** पर टैप करें।

मेल

आप चलते-फरिते अपने फ़ोन से मेल भेज सकते हैं।

एक मेल खाता जोड़ें

पहली बार Gmail ऐप का उपयोग करने पर, आपसे अपना ईमेल खाता सेट अप करने को कहा जाता है।

1. **Gmail** पर टैप करें।
2. आप अपने Google खाते से कनेक्ट पता चुन सकते हैं या फिर **एक ईमेल पता जोड़ें** पर टैप कर सकते हैं।
3. सभी खाते जोड़ने के बाद, **मुझे GMAIL पर ले जाएं** पर टैप करें।

मेल भेजें

1. **Gmail** पर टैप करें।
2. **✍** पर टैप करें।
3. **प्रति** बॉक्स में, एक पता टाइप करें या **⋮ >** **संपर्क से जोड़ें** पर टैप करें।
4. संदेश का विषय और फिर मेल टाइप करें।
5. **▶** पर टैप करें।

6 कैमरा

कैमरे से संबंधित बुनियादी बातें

फ़ोटो लें

स्पष्ट और जीवंत फ़ोटो शूट करें – अपने फ़ोटो एल्बम में यादगार पलों को कैप्चर करें.

1. **कैमरा** पर टैप करें.
2. लक्ष्य बांधें और फोकस करें.
3. **○** पर टैप करें.



फ्लैश का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा दूरी बनाकर रखें. लोगों या जानवरों के नजदीक फ्लैश का उपयोग न करें। फोटो लेते समय फ्लैश को ढकें नहीं।

सेल्फी लें

1. फ्रंट कैमरे पर स्विच करने के लिए **कैमरा** > **⊗** पर टैप करें.
2. **○** पर टैप करें.

वीडियो रिकॉर्ड करें

1. **कैमरा** पर टैप करें.
2. वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में बदलने के लिए, **वीडियो** पर टैप करें.
3. रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए **⊙** पर टैप करें.
4. रिकॉर्डिंग रोकने के लिए **⊙** पर टैप करें.
5. कैमरा मोड पर वापस जाने के लिए, **फ़ोटो** पर टैप करें.

आपके फ़ोटो और वीडियो

अपने फ़ोन पर फ़ोटो और वीडियो देखें

फ़ोटो पर टैप करें.

अपने फ़ोटो और वीडियो साझा करें

1. **फ़ोटो** पर टैप करें, उस फोटो पर टैप करें, जसि आप साझा करना चाहते हैं और **↵** पर टैप करें.
2. यह चुनें कि आप किस तरह फ़ोटो या वीडियो साझा करना चाहते हैं.

अपने कंप्यूटर पर अपने फ़ोटो और वीडियो कॉपी करें


अपने फ़ोन को एक संगत USB केबल के ज़रिये अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें. अपने फ़ोटो और वीडियो कंप्यूटर पर कॉपी करने या स्थानांतरित करने के लिए अपने कंप्यूटर के फ़ाइल मैनेजर का उपयोग करें.

7 इंटरनेट और कनेक्शन

वाई-फ़ाई सक्रिय करें

वाई-फ़ाई चालू करें

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **इंटरनेट** पर टैप करें.
2. **वाई-फ़ाई** चालू करें.
3. आप जिस नेटवर्क का उपयोग करना चाहते हैं उसे चुनें.

जब स्क्रीन के ऊपर  दिखाई दे, तो समझ लें कि आपका वाई-फ़ाई कनेक्शन सक्रिय है. यदि वाई-फ़ाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन दोनों उपलब्ध हों, तो आपका फ़ोन वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करता है.

महत्वपूर्ण: अपने वाई-फ़ाई कनेक्शन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें. एन्क्रिप्शन का उपयोग करने पर दूसरों के द्वारा आपका डेटा एक्सेस करने का जोखिम कम हो जाता है.

वेब ब्राउज़ करें

वेब खोजें

1. **Chrome** पर टैप करें.
2. खोज फ़ील्ड में कोई खोज शब्द या वेब पता लखें.
3. → पर टैप करें या प्रस्तावित मिलानों से चुनें.



सुझाव: यदि आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता आपसे डेटा स्थानांतरण के लिए कोई नशिचति शुल्क नहीं लेता है, तो डेटा लागत बचाने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वाई-फ़ाई नेटवर्क का उपयोग करें।

अपने फ़ोन का उपयोग करके अपने कंप्यूटर को वेब से कनेक्ट करें

अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करके अपने लैपटॉप या अन्य डेवाइस से इंटरनेट एक्सेस करें.

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **हॉटस्पॉट और टेदरगि** पर टैप करें.
2. वाई-फ़ाई पर अपना मोबाइल डेटा कनेक्शन साझा करने के लिए **वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट** को, USB कनेक्शन का उपयोग करने के लिए **USB टेदरगि** को, ब्लूटूथ का उपयोग करने के लिए **ब्लूटूथ टेदरगि** को या USB ईथरनेट केबल का उपयोग करने के लिए **ईथरनेट टेदरगि** को चालू करें.

दूसरा डेवाइस आपके डेटा प्लान के डेटा का उपयोग करता है, जिसके लिए आपसे डेटा ट्रैफ़िक शुल्क लिया जा सकता है. उपलब्ध और लागतों की जानकारी के लिए, अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

BLUETOOTH®

किसी ब्लूटूथ डवाइस से कनेक्ट करें

1. सेटिंग > कनेक्टेड डवाइस > कनेक्शन प्राथमिकिताएँ > ब्लूटूथ पर टैप करें.
2. Bluetooth का उपयोग करें चालू करें.
3. सुनिश्चिती करें कि अन्य डवाइस भी चालू है. आपको दूसरे डवाइस से युग्मन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है. वविरण के लिए, दूसरे डवाइस के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें.
4. नया डवाइस युग्मति करें पर टैप करें और खोजे गए ब्लूटूथ डवाइस की सूची में से उस डवाइस पर टैप करें, जिससे आप युग्मति करना चाहते हैं.
5. आपको एक पासकोड टाइप करना पड़ सकता है. वविरण के लिए, दूसरे डवाइस के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें.

चूंकि ब्लूटूथ वायरलेस प्रौद्योगिकी वाले डवाइस संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, इसलिए उनका प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिरेखा में होना ज़रूरी नहीं है. हालांकि, ब्लूटूथ डवाइस एक दूसरे से 10 मीटर (33 फुट) की दूरी पर होने चाहिए. दीवार जैसी रुकावटों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डवाइस द्वारा पैदा किए जाने वाले व्यवधान के कारण कनेक्शन प्रभावित हो सकता है.

Bluetooth चालू होने पर युग्मति डवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकते हैं. अन्य डवाइस आपके फ़ोन का पता केवल तभी लगा सकेंगे, जब ब्लूटूथ सेटिंग दृश्य खुला हो.

अज्ञात डवाइस के साथ न तो युग्मति करें न उनके कनेक्शन अनुरोध स्वीकार करें. इससे आपके फ़ोन को हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.

ब्लूटूथ का उपयोग करके अपनी सामग्री साझा करें

अगर आप अपनी फ़ोटो या अन्य सामग्री को किसी मतिर से साझा करना चाहते हैं, तो ब्लूटूथ का उपयोग करके उन्हें अपने मतिरों को भेजें.


आप एक बार में एक से अधिक ब्लूटूथ कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, ब्लूटूथ हेडसेट का उपयोग करते समय, आप अभी भी अन्य फ़ोन को सामग्री भेज सकते हैं.

1. सेटिंग > कनेक्टेड डवाइस > कनेक्शन प्राथमिकिताएँ > ब्लूटूथ पर टैप करें.
2. सुनिश्चिती करें कि दोनों फ़ोन पर ब्लूटूथ चालू है और फ़ोन एक दूसरे के लिए दृश्यमान हैं.
3. आप जिस सामग्री को भेजना चाहते हैं उस पर जाएं और < > ब्लूटूथ पर टैप करें.
4. प्राप्त ब्लूटूथ डवाइस की सूची में अपने मतिर के फ़ोन पर टैप करें.
5. यदि दूसरे फ़ोन के लिए पासकोड की ज़रूरत है, तो पासकोड टाइप करें या स्वीकार करें और टैप करें. युग्मति करें.

पासकोड का उपयोग सिर्फ़ तभी किया जाता है, जब आप पहली बार किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं.

युग्मन नकालें

यदि अब आपके पास वह डिविइस नहीं है, जिसके साथ आपने अपना फ़ोन युग्मन किया था, तो आप वह युग्मन नकाल सकते हैं।

1. **सेटिंग** > **कनेक्टेड डिविइस** > **पूरव में कनेक्टेड डिविइस** पर टैप करें.
2. डिविइस नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें.
3. **भूल जाएं** पर टैप करें.

VPN


अपनी कंपनी के संसाधन, जैसे कि इंटरनेट या कॉर्पोरेट मेल एक्सेस करने के लिए आपको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) कनेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, या फिर आप व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किसी VPN सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

अपने VPN कॉन्फ़िगरेशन के विवरण हेतु अपनी कंपनी के IT व्यवस्थापक से संपर्क करें या अतिरिक्त जानकारी के लिए अपनी VPN सेवा की वेबसाइट पर नज़र डालें।


एक सुरक्षित VPN कनेक्शन का उपयोग करें

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **VPN** पर टैप करें.
2. एक VPN प्रोफ़ाइल जोड़ने के लिए, **+** पर टैप करें.
3. अपनी कंपनी के IT व्यवस्थापक या VPN सेवा के निर्देशानुसार अपनी प्रोफ़ाइल जानकारी टाइप करें.

VPN प्रोफ़ाइल संपादित करें

1. प्रोफ़ाइल नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें.
2. जानकारी को आवश्यकतानुसार बदलें.

VPN प्रोफ़ाइल हटाएं

1. प्रोफ़ाइल नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें.
2. **भूल जाएं** पर टैप करें.

8 अपना दिन व्यवस्थित करें

दुनियांक और समय

दुनियांक और समय सेट करें

सेटिंग > सिस्टम > दुनियांक और समय पर टैप करें.

समय और दुनियांक स्वचालित रूप से अपडेट करें

आप अपने फ़ोन को समय, दुनियांक और समय क्षेत्र को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए सेट कर सकते हैं. स्वचालित अपडेट एक नेटवर्क सेवा है और आपके क्षेत्र या नेटवर्क सेवा प्रदाता पर निर्भर करते हुए हो सकता है आपके लिए उपलब्ध न हो.

1. सेटिंग > सिस्टम > दुनियांक और समय पर टैप करें.
2. समय को स्वचालित रूप से सेट करें चालू करें.
3. समय क्षेत्र को स्वचालित रूप से सेट करें चालू करें.

घड़ी को 24-घंटे के प्रारूप में बदलें

सेटिंग > सिस्टम > दुनियांक और समय पर टैप करें और 24-घंटे के प्रारूप का उपयोग करें को चालू पर स्वचि करें.

अलार्म घड़ी

अलार्म सेट करें

1. घड़ी > अलार्म पर टैप करें.
2. अलार्म जोड़ने के लिए, + पर टैप करें.
3. घंटा और मिनट चुनकर ठीक पर टैप करें.
4. अलार्म को कुछ खास दुनियांकों पर दोहराने हेतु सेट करने के लिए संबंधित सप्ताह के दुनिों पर टैप करें.

अलार्म बंद करें

अलार्म बजने पर आप उसे दाईं ओर स्वाइप करें.

कैलेंडर

कैलेंडर का प्रकार चुनें

कैलेंडर > ≡ टैप करें और फिर चुनें कि आप किस प्रकार का कैलेंडर देखना चाहते हैं।

यदि आपने अपने Google खाते जैसे किसी खाते में साइन इन किया है, तो आपका कैलेंडर फ़ोन पर दिखाया जाता है।

एक ईवेंट जोड़ें

1. **कैलेंडर** > + पर टैप करें.
2. आवश्यक विवरण जोड़ें.
3. ईवेंट को कुछ खास दिनों पर दोहराने के लिए, **नहीं दोहराया जाता** पर टैप करें और यह चुनें
4. रमिंडर सेट करने के लिए, **नोटिफ़िकेशन जोड़ें** पर टैप करें और समय सेट करें.
5. **सहेजें** पर टैप करें.



सुझाव: कोई ईवेंट संपादित करने के लिए, ईवेंट और ✎ पर टैप करके विवरण संपादित करें.

कोई अपॉइंटमेंट हटाएं

1. ईवेंट पर टैप करें.
2. ∴ > **हटाएं** पर टैप करें.

9 मानचित्र

स्थान ढूँढें और दिशा निर्देश प्राप्त करें

कोई स्थान ढूँढें

Google मानचित्र की मदद से विशिष्ट स्थान और व्यवसाय ढूँढें.


1. मानचित्र पर टैप करें.
2. खोज बार में खोज शब्द, जैसे कसिड़क का पता या स्थान का नाम लखें.
3. लिखते समय प्रस्तावित मिलानों की सूची से एक आइटम चुनें या खोजने के लिए \mathcal{Q} पर टैप करें.

स्थान मानचित्र पर दिखाया जाता है. यदि खोज का कोई परिणाम नहीं मिलता, तो सुनिश्चित करने की आपके खोज शब्दों की वर्तनी सही है.

अपना मौजूदा स्थान देखें

मानचित्र >  पर टैप करें.

किसी स्थान तक जाने के दिशा निर्देश प्राप्त करें

1. मानचित्र पर टैप करें और खोज पट्टी में अपना गंतव्य दर्ज करें.
2. दिशाएं टैप करें. हाइलाइट किए गए आइकन परविहन का माध्यम दर्शाता है, उदाहरण के लिए . माध्यम बदलने के लिए, खोज पट्टी के अंतर्गत नया माध्यम चुनें.
3. यदि आप अपने मौजूदा स्थान को प्रारंभ बिंदु नहीं बनाना चाहते, तो अपने स्थान पर टैप करके एक नए प्रारंभ बिंदु की खोज करें.
4. नेविगेशन प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ करें पर टैप करें.

मार्ग मानचित्र पर दिखाया जाता है और साथ ही इसका अनुमान भी दिखाया जाता है कि वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा. वस्तुतः दिशा निर्देश देखने के लिए चरण पर टैप करें.

10 ऐप, अद्यतन और बैकअप

GOOGLE PLAY से ऐप प्राप्त करें

कोई भुगतान पद्धत जोड़ें

Google Play सेवाओं का उपयोग करने के लिए, आपको अपने फ़ोन पर एक Google खाता जोड़ना होगा। शुरुआत Google Play में उपलब्ध कुछ सामग्री पर लगाए जा सकते हैं। भुगतान पद्धत जोड़ने के लिए, Play स्टोर, खोज फ़ील्ड में अपना Google लोगो टैप करें, और फिर भुगतान और सब्सक्रिप्शन पर टैप करें। Google Play से सामग्री खरीदते समय भुगतान पद्धत के स्वामी की अनुमति लेना न भूलें।

ऐप्स डाउनलोड करें

1. Play स्टोर पर टैप करें।
2. ऐप्स ढूंढने के लिए खोज बार पर टैप करें या अपनी अनुशंसाओं से ऐप्स चुनें।
3. ऐप वर्णन में, ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल करें पर क्लिक करें।

अपने ऐप देखने के लिए, होम स्क्रीन पर जाएँ और स्क्रीन के नचिले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें।

अपना फ़ोन सॉफ़्टवेयर अपडेट करें

उपलब्ध अपडेट इंस्टॉल करें

अपडेट उपलब्ध है या नहीं यह देखने के लिए सेटिंग > सिस्टम > सिस्टम अपडेट > अपडेट की जांच करें पर टैप करें।

जब आपका फ़ोन आपको किसी अपडेट के उपलब्ध होने की सूचना दे, तो अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें। यदि आपकी फ़ोन मेमोरी कम हो गई है, तो आपको अपने ऐप्स, फ़ोटो या अन्य सामग्री मेमोरी कार्ड पर ले जानी होगी।

अपडेट शुरू करने से पहले, चार्जर कनेक्ट कर लें या सुनिश्चित कर लें कि डिविइस की बैटरी में पर्याप्त पावर है और फिर वाई-फ़ाई से कनेक्ट करें, क्योंकि अपडेट पैकेज आपका बहुत सारा मोबाइल डेटा खर्च कर सकते हैं।

अपने डेटा का बैकअप लें

अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने फ़ोन में बैकअप सुविधा का उपयोग करें। आपका डिविइस डेटा (जैसे वाई-फ़ाई पासवर्ड और कॉल इतिहास) और ऐप डेटा (जैसे कि सेटिंग और ऐप्स द्वारा संग्रहित फ़ाइलें) का बैकअप दूरस्थ रूप से लिया जाएगा।

स्वचालित बैकअप चालू करें

सेटिंग > **सस्टिम** > **बैकअप** पर टैप करें और बैकअप का स्वचि चालू कर दें.

मूल सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें और अपने फ़ोन से नज़ी सामग्री हटाएं

अपना फ़ोन रीसेट करें

1. **सेटिंग** > **सस्टिम** > **रीसेट के विकल्प** > **सभी डेटा मटाएँ (फ़ैक्टरी रीसेट)** पर टैप करें.
2. आपके फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें.

11 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपकी सुरक्षा के लिए

ये आसान दिशानिर्देश पढ़ें। इनका पालन न करना खतरनाक या स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के खिलाफ हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए पूरा उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

मना की गई जगहों पर डविइस बंद करें



जब मोबाइल डविइस के उपयोग की अनुमति नहीं हो या जब यह हस्तक्षेप या खतरे का कारण बन सकता हो, उदाहरण के लिए, विमान में, अस्पतालों में या चिकित्सीय उपकरण, ईंधन, रासायनिक पदार्थों, या विस्फोट वाले क्षेत्रों में डविइस को बंद कर दें। मना की गई जगहों के सभी निर्देशों का पालन करें।

सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता दें



सभी स्थानीय कानूनों का पालन करें। कृपया वाहन चलाते समय उससे जुड़े काम करने के लिए हमेशा अपने हाथ खाली रखें। वाहन चलाते समय आपका सबसे ज्यादा ध्यान सड़क से जुड़ी सुरक्षा पर होना चाहिए।

व्यवधान



Nokia C32 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

सभी वायरलेस डवाइस व्यवधान के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जिससे परफॉर्मेंस में असर पड़ सकता है।

अधिकृत सेवा



केवल अधिकृत कर्मचारी ही इस उत्पाद को स्थापित या मरम्मत कर सकते हैं, जब तक कि स्वयं-मरम्मत सहायता उपलब्ध न हो। अधिक जानकारी www.hmd.com/self-repair पर देखें।

बैटरी, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़



इस डवाइस के साथ केवल HMD Global Oy द्वारा स्वीकृत बैटरियों, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़ का उपयोग करें। अनुपयुक्त डवाइस कनेक्ट न करें।

अपने डवाइस को सूखा रखें



यदि आपका डवाइस जल-प्रतिरोधी है, तो अधिक विस्तृत मार्गदर्शन के लिए डवाइस की तकनीकी वनिर्देशनों में इसकी IP रेटिंग देखें।

कांच के पुरजे



इस डविाइस और/या इसकी स्क्रीन कांच से नर्मित है. यदि डविाइस किसी कठोर सतह पर गरिता है या उसे तेज़ आघात लगता है, तो यह कांच टूट सकता है. जब तक कांच बदला न जाए तब तक डविाइस का उपयोग बंद रखें।

अपनी सुनने की क्षमता की सुरक्षा करें



सुनने की क्षमता को हो सकने वाली क्षति रोकने के लिए, लंबे समय तक उच्च वॉल्यूम स्तर पर न सुनें. जब लाउड स्पीकर उपयोग में हो, तब अपने डविाइस को कान के पास इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें.

नेटवर्क सेवाएं और लागतें

कुछ सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करने, या मुफ्त सामग्री सहित सामग्री डाउनलोड करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इससे बड़ी मात्रा में डेटा का स्थानांतरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा लागत बढ़ सकती है। आपको कुछ सुविधाओं की सदस्यता लेने की भी आवश्यकता हो सकती है।



महत्वपूर्ण: हो सकता है आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता या यात्रा के दौरान आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा सेवा प्रदाता 4G/LTE का समर्थन न करता हो. ऐसे मामलों में, आप न तो कॉल कर सकेंगे न प्राप्त कर सकेंगे, न तो संदेश भेज सकेंगे न प्राप्त कर सकेंगे और न ही मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग कर सकेंगे. यदि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पूर्ण 4G/LTE सेवा उपलब्ध न होने पर भी आपका डविाइस निर्बाध काम करता रहे, तो आपको उच्चतम कनेक्शन गति को 4G से 3G में बदलने का सुझाव दिया जाता है. ऐसा करने के लिए होम स्क्रीन पर **सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > SIM** पर टैप करें और **पसंदीदा नेटवर्क प्रकार** को **3G** पर बदलें. अधिक जानकारी के लिए, अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

आपातकालीन कॉल





महत्वपूर्ण: सभी परस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जाती है। चकित्सा-उपचार से जुड़ी आपातकालीन स्थिति जैसी अत्यावश्यक बातचीत के संबंध में कभी भी केवल वायरलेस फ़ोन के भरोसे न रहें।

कॉल करने से पहले:

- फ़ोन चालू करें।
- यदि फ़ोन स्क्रीन और कुंजियां लॉक हैं, तो उन्हें अनलॉक करें।
- ऐसी जगह पर चले जाएं, जहां सग्नल की शक्ति पर्याप्त है।

किसी भी स्क्रीन पर आपातकालीन कॉल करने के लिए, पावर कुंजी को 3 बार दबाएँ।

होम स्क्रीन में,  पर टैप करें

1. अपने मौजूदा स्थान के लिए आधिकारिक आपातकालीन नंबर टाइप करें। आपातकालीन कॉल नंबर स्थान-दर-स्थान अलग-अलग होते हैं।
2.  पर टैप करें।
3. ज़रूरी और जतिनी हो सके सटीक जानकारी दें। कॉल समाप्त करने की अनुमति मिलने तक कॉल समाप्त न करें।

आपको नमिन् कार्य भी करना पड़ सकता है:

- फ़ोन में एक SIM कार्ड डालें। यदि आपके पास SIM नहीं है, तो लॉक स्क्रीन में **आपातकालीन कॉल** पर टैप करें।
- यदि आपका फ़ोन पनि कोड मांगता है, तो **आपातकालीन कॉल** पर टैप करें।
- अपने फ़ोन में कॉल बारगि, फ़िक्स्ड डायलिंग या क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप जैसे कॉल प्रतबंध बंद कर दें।
- यदि मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, तो आप इंटरनेट से कॉल करने का भी प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें।

अपने डवाइस का ध्यान रखें

अपने डवाइस, बैटरी, चार्जर और एक्सेसरीज़ का ध्यान से उपयोग करें। नीचे दिए गए सुझावों की मदद से आप अपने डवाइस को कार्यशील बनाए रख सकते हैं।

- डवाइस को सूखा रखें। बारिश, आर्द्रता और सभी प्रकार के तरल पदार्थ या नमी में ऐसे खनजि हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खराब कर सकते हैं।
- डवाइस को धूल भरे या गंदे क्षेत्रों में उपयोग या

- भंडारण न करें।
- डिवाइस को उच्च तापमान पर न रखें। ऊंचे तापमान के कारण डिवाइस या बैटरी क्षतिग्रस्त हो सकती है।
- डिवाइस को ठंडे तापमान में न रखें। जब डिवाइस अपने सामान्य तापमान तक गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर नमी पैदा हो कर उसे खराब कर सकती है।
- उपयोगकर्ता गाइड में दिए गए निर्देशों के अलावा डिवाइस को न खोलें।
- अनधिकृत संशोधन से उपकरण को क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा रेडियो उपकरणों को न्यंत्रित करने वाले वनियमों का उल्लंघन हो सकता है।
- डिवाइस या बैटरी को गरिएं नहीं, खटखटाएं नहीं, या हलियां नहीं। लापरवाही से उपयोग करने पर वह टूट सकता है।
- डिवाइस की सतह को साफ करने के लिए केवल मुलायम, साफ, सूखे कपड़े का उपयोग करें।
- डिवाइस पर पेंट न करें। पेंट उचित संचालन में रुकावट पैदा कर सकता है।
- डिवाइस को चुम्बक या चुम्बकीय क्षेत्र से दूर रखें।
- अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, उसे कम से कम दो अलग-अलग स्थानों पर संग्रहीत करें, जैसे कि आपका डिवाइस, मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर, या महत्वपूर्ण जानकारी लिख लें।

वस्तुनिष्ठ संचालन के दौरान, डिवाइस छूने पर गर्म लग सकता है। अधिकांश मामलों में, यह एक आम बात होती है। खुद को बहुत गर्म होने से बचाने के लिए, डिवाइस अपनी गतिविधालि रूप से कम कर सकता है, वीडियो कॉल के दौरान प्रदर्शन को कम कर सकता है, ऐप्स बंद कर सकता है, चार्जिंग बंद कर सकता है और जरूरी होने पर खुद को बंद कर सकता है। यदि डिवाइस सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसे नजदिकतम अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएं।

रीसाइकल करना



इस्तेमाल किए जा चुके वद्युतीय उत्पादों, बैटरियों और पैकेजिंग के मटेरियल को हमेशा संबंधित संकलन केंद्र पर वापस कर दें। इससे अनयंत्रित कूड़े का नपिटारा करने और मटेरियल को रीसाइकल करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बहुत सारा कीमती मटेरियल रहता है, जैसे कि धातु (तांबा, अल्युमीनियम, स्टील और मैग्नेशियम) और कीमती धातु (सोना, चांदी और पैलेडियम)। डिवाइस के सारे मटेरियल को मटेरियल या ऊर्जा के तौर पर रकिवर किया जा सकता है।

ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है

ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है



आपके उत्पाद, बैटरी, साहित्य या पैकेजिंग पर बना व्हीली-बनि पर क्रॉस के नशान वाला प्रतीक आपको याद दिलाता है किसभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बैटरियों को उनका जीवनकाल समाप्त हो जाने पर एक पृथक संग्रहण केंद्र पर ले जाना चाहिए। पहले डवाइस से नज्जी डेटा नकालना न भूलें। इन उत्पादों को नगर नगिम के नहीं छांटे गए कूड़े में न फेंकें: उन्हें रीसाइकल के लिए ले जाएं। अपने नकिततम रीसाइकलिंग पॉइंट की जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अपशष्टि प्राधिकरण से संपर्क करें, या HMD के टेक-बैक कार्यक्रम और अपने देश में इसकी उपलब्धता के बारे में www.hmd.com/phones/support/topics/recycle पर पढ़ें।

बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी

बैटरी और चार्जर की जानकारी

आपके फ़ोन की बैटरी नकाली जा सकती है या नहीं नकाली जा सकती इसका पता लगाने के लिए मुद्रति मार्गदर्शिका देखें।

नकाली जा सकने वाली बैटरी वाले डवाइस अपने डवाइस का केवल ओरजिनिल रीचार्जेबल बैटरी के साथ उपयोग करें। बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डस्चार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी। जब टॉक और स्टैंडबाई का समय सामान्य से कम हो जाए, तो बैटरी बदल दें।

बनि नकाली जा सकने वाली बैटरी वाले उपकरण बैटरी नकालने का प्रयास न करें, क्योंकि इस प्रयास में आप डवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डस्चार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी। जब टॉक और स्टैंडबाई का समय सामान्य से काफ़ी कम हो जाए, तो बैटरी बदलने के लिए अपने डवाइस को किसी नकिततम अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएं।

अपने डवाइस को संगत चार्जर का उपयोग करके चार्ज करें। चार्जर के प्लग का प्रकार भन्न हो सकता है। चार्ज करने का समय, उपकरण की क्षमता पर नरिभर करते हुए अलग-अलग हो सकता है।

बैटरी और चार्जर की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपके डवाइस की चार्जिंग पूरी हो जाने पर, डवाइस और इलेक्ट्रिकल आउटलेट से चार्जर का प्लग नकाल दें। कृपया ध्यान दें कि 12 घंटे से अधिक समय तक लगातार चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। उपयोग में न होने पर भी ऐसे ही छोड़ने से कुछ समय बाद पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी भी डस्चार्ज होती जाएगी।

तापमान अत्यधिक कम या ज्यादा होने से बैटरी की क्षमता और लाइफटाइम कम हो जाती है. अनुकूलतम प्रदर्शन के लिए, बैटरी को हमेशा 15°C और 25°C (59°F और 77°F) के तापमान में रखें. हो सकता है कि गर्म या ठंडी बैटरी वाला डेवाइस कुछ देर तक काम न कर पाए. ध्यान दें कि ठंडे तापमान में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है और मनिटों में फ़ोन को बंद करने की पर्याप्त शक्ति खो सकती है. जब आप ठंडे तापमान में बाहर होते हैं, तब अपने फ़ोन को गर्म रखें.

स्थानीय अधिनियमों का पालन करें. संभव होने पर रीसाइकल करें. घरेलू कूड़े-कचरे के साथ न फेंकें.

बैटरी को बहुत कम हवा के अत्यधिक नमिन् दबाव में या अत्यधिक उच्च तापमान पर न रखें, उदाहरण के लिए आग में नपिटान करना, क्योंकि इससे ज्वलनशील तरल या गैस का वस्फोट या रसाव हो सकता है.

बैटरी को किसी भी प्रकार से खोलने, काटने, मोड़ने, छेद करने या दूसरी तरह से क्षतिपिंहचाने का काम न करें. बैटरी लीक होने पर उसके तरल पदार्थ को त्वचा या आंखों के संपर्क में आने न दें. ऐसा होने पर, प्रभावित जगह को तुरंत पानी से धो डालें या डॉक्टर की मदद लें. बैटरी में संशोधन न करें, न ही उसमें कोई बाह्य वस्तु घुसेड़ने की कोशिश करें, या फरि उसे पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ में डुबोने या उद्घाटित करने का काम न करें. क्षति होने पर बैटरी फट सकती है.

बैटरी या चार्जर का उपयोग नहिति उद्देश्यों के लिए ही करें. सही से उपयोग न करने अथवा स्वीकृत नहीं दी गई या अनुपयुक्त बैटरी या चार्जर का उपयोग करने से आग लगने, वस्फोट होने या अन्य खतरे का जोखिम उत्पन्न हो सकता है और इससे कोई भी स्वीकृतिया वारंटी अमान्य हो सकती है. अगर आपको लगता है कि बैटरी या चार्जर क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसका उपयोग जारी रखने से पहले उसे सेवा केंद्र में ले जाएं या फरि अपने फ़ोन डीलर को दिखाएं. कभी भी क्षतिग्रस्त बैटरी या चार्जर का उपयोग न करें. केवल घर के अंदर ही चार्जर का उपयोग करें. बजिली कड़कने पर अपने डेवाइस को चार्ज न करें. जब चार्जर बकिरी पैक में शामिल न किया गया हो, तो डेटा केबल (शामलि) और एक USB पावर एडाप्टर (अलग से बेचा जा सकता है) का उपयोग करके अपने डेवाइस को चार्ज करें. आप अपने डेवाइस को ऐसे तृतीय-पक्ष केबल और पावर एडाप्टर के साथ चार्ज कर सकते हैं, जो USB 2.0 या बाद के संस्करण के साथ और लागू देश के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो. हो सकता है कि अन्य एडाप्टर लागू सुरक्षा मानकों को पूरा न करते हों, और ऐसे एडाप्टर से चार्ज करने से संपत्तिका नुकसान या किसी को चोट लगने का खतरा हो सकता है.

कोई चार्जर या एक्सेसरी अनप्लग करने के लिए प्लग को पकड़ें और खींचें, तार को नहीं.

इसके अलावा, यदि आपके डेवाइस की बैटरी निकाली जा सकती है, तो उस पर नीचे दिए नियम लागू होंगे:

- किसी भी कवर या बैटरी को हटाने से पहले हमेशा डेवाइस को बंद कर दें और चार्जर को अनप्लग कर दें।
- धातु वाली वस्तुएं बैटरी की धातु वाली पट्टी के संपर्क में आने पर आकस्मिक रूप से शॉर्ट-सर्किट हो सकती है. इससे बैटरी या अन्य वस्तु को क्षतिपिंहच सकती है.

छोटे बच्चे

आपका डेवाइस और इसके एक्सेसरीज़ खलिलैने नहीं हैं. उनमें छोटे-छोटे पुर्जे हो सकते हैं. उन्हें छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें.

चकित्सा उपकरण

वायरलेस फ़ोन जैसे रेडियो ट्रांसमिटर करने वाले डेवाइस के संचालन से अपर्याप्त रूप से सुरक्षित चकित्सा उपकरणों की कार्यप्रणाली पर बाधा पहुंच सकती है। चकित्सा उपकरण को बाह्य रेडियो एनर्जी के प्रति पर्याप्त सुरक्षा दी गई है या नहीं, यह तय करने के लिए चकित्सक या उक्त उपकरण के निर्माता से सलाह-परामर्श लें।

प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण

संभावित व्यवधान से बचने के लिए, प्रत्यारोपित चकित्सा डेवाइस (जैसे कार्डिएक पेसमेकर, इंसुलिन पंप और न्यूरोस्टिम्युलेटर) निर्माता वायरलेस डेवाइस और चकित्सा डेवाइस के बीच कम-से-कम 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) की दूरी बनाए रखने का सुझाव देते हैं। ऐसे उपकरण वाले व्यक्ति को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

- वायरलेस डेवाइस को हमेशा मेडिकल डेवाइस से 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) से अधिक दूर रखें।
- वायरलेस डेवाइस को अपनी छाती की जेब में न रखें।
- वायरलेस डेवाइस को चकित्सा उपकरण के विपरीत कान पर रखें।
- यदि आपको संदेह हो कि कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो वायरलेस डेवाइस को बंद कर दें।
- प्रत्यारोपित चकित्सा उपकरण के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें।

प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण के साथ अपने वायरलेस डेवाइस के इस्तेमाल के संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न हो, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

सुनने की क्षमता

- ❗ **चेतावनी:** जब आप हेडसेट का उपयोग करते हैं, तो बाहरी आवाज़ें सुनने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। जब हेडसेट आपकी सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता हो, तब उसका उपयोग न करें।

कुछ वायरलेस डेवाइस कुछ सुनने की क्षमता के सहायक उपकरणों को बाधा पहुंचा सकते हैं।

अपने डेवाइस की हानिकारक सामग्री से सुरक्षा करें

आपका डेवाइस वायरस या अन्य हानिकारक सामग्री के संपर्क में आ सकता है। निम्नलिखित सावधानियां रखें:

- संदेश खोलते समय सावधान रहें। उनमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या वे आपके डेवाइस अथवा कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- इंटरनेट ब्राउज़ करते समय या सामग्री डाउनलोड करते समय सावधान रहें। गैर-भरोसेमंद स्रोतों से ब्लूटूथ कनेक्शन स्वीकार न करें।
- कनेक्टिविटी अनुरोध स्वीकार करते समय,
- केवल उन स्रोतों से सेवाएं और सॉफ्टवेयर

स्थापित करें और उनका उपयोग करें जनि पर आपको भरोसा हो और जो पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते हों।

- अपने डविाइस और उससे जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। एक बार में केवल एक एंटीवायरस ऐप का उपयोग करें। ज्यादा एंटीवायरस का

उपयोग करने पर डविाइस और/या कंप्यूटर का प्रदर्शन और संचालन प्रभावित हो सकता है।

- यदि आप पूर्वस्थापित बुकमार्क्स और तृतीय पक्ष इंटरनेट साइटों के लकि तक पहुंचते हैं, तो उचित सावधानी बरतें। HMD Global ऐसी साइटों का न तो अनुमोदन करता है और न ही उनकी ज़िम्मेदारी लेता है।

वाहन

रेडियो सिग्नल से वाहनों में मौजूद सही से इंस्टॉल नहीं की गई या अपर्याप्त सुरक्षा वाली वदियुतीय प्रणाली पर असर पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने वाहन या उसके उपकरण के निर्माता से संपर्क करें। वाहन में केवल अधिकृत कर्मचारी द्वारा ही डविाइस इंस्टॉल किया जाना चाहिए। गलत तरीके से इंस्टॉल करना खतरनाक हो सकता है और इससे आपकी वारंटी अमान्य हो सकती है। नियमिती रूप से इस बात की जांच करते रहें कि आपके वाहन में डविाइस उपकरण सही से लगाया गया और वह सही से काम कर रहा है कनिहीं। डविाइस, उसके पुर्जे या एक्सेसरीज़ जसि खंड में हैं उसी खंड में ज्वलनशील या वसिफोटक मटेरियल रखने या ढोने का काम न करें। एयरबैग वाली जगह पर अपना डविाइस या एक्सेसरीज़ न रखें।

संभावति रूप से वसिफोटक जगहें

गैसोलिनि पंप जैसी संभावति रूप से वसिफोटक जगहों पर अपना डविाइस बंद करें। चगियारियों से वसिफोट या आगजनी हो सकती है, जसिसे चोट या मृत्यु हो सकती है। ईंधन, रासायनकि पदार्थों के प्लांट या वसिफोट वाली कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही जगहों पर दएि गए नषिधों पर ध्यान दें। संभावति रूप से वसिफोटक जगहों पर हो सकता है कि साफ़ संकेत न हों। सामान्य रूप से ये वो जगहें होती हैं जहां पर आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने की सलाह दी जाती है, बोट पर डेक से नीचे, रासायनकि पदार्थ के स्थानांतरण या फ़ैसलिटी पर और जहां हवा में रासायनकि पदार्थ या कण हों। तरल पदार्थ वाले पेट्रोलियम गैस (जैसे कप्रोपेन या ब्यूटेन) का उपयोग करने वाले वाहनों के निर्माताओं से पूछताछ करें कि उनके आस-पास यह डविाइस सुरक्षति तरीके से उपयोग किया जा सकता है कनिहीं।

प्रमाणन जानकारी

यह मोबाइल डविाइस रेडियो तरंगों के एक्पोज़र से जुड़े दशानरिदेशों का पालन करता है।

आपका मोबाइल डविाइस रेडियो ट्रांसमीटर और रसिीवर है। इसे स्वतंत्र वैज्ञानकि संगठन ICNIRP के अंतरराष्ट्रीय दशानरिदेशों में सुझाए गए रेडियो तरंगों के एक्पोज़र (रेडियो फ़्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड) से जुड़ी सीमाएं पार न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन दशानरिदेशों में सुरक्षा के संबंध में आवश्यक सीमाएं निर्धारति की जाती हैं, जनिका उद्देश्य उम्र और तबयित कैसी भी क्यों न हो, सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चति करना होता है। ये एक्पोज़र के दशानरिदेश स्पेसिफ़िक अब्ज़ॉर्प्शन रेट (SAR) पर आधारति होते हैं, जो कि उस समय सरि या शरीर में जमा होने वाले रेडियो फ़्रीक्वेंसी (RF) पावर की मात्रा बताने का तरीका है, जब डविाइस ट्रांसमिट कर रहा होता है। मोबाइल डविाइस के लिए ICNIRP SAR की सीमा 10 ग्राम टिशू पर औसत 2.0 W/kg होता है।

डवाइस से जुड़े SAR के परीक्षण संचालन की मानक स्थितियों में किया जाता है, जब वह अपने सभी फ्रीक्वेंसी बैंड पर, प्रमाणित अधिकतम पावर स्तर पर ट्रांसमिट करता है।

यह डवाइस सरि के सामने उपयोग किए जाने पर या शरीर से कम से कम 5/8 इंच (1.5 सेंटीमीटर) की दूरी पर रखे जाने पर RF एक्सपोजर से जुड़े दशानिर्देशों का पालन करता है। शरीर पर टांग कर इस्तेमाल करने के लिए कोई कैरी केस, बेल्ट क्लिप या कोई दूसरी तरह का डवाइस होल्डर उपयोग किए जाने पर, उसमें धातु नहीं होना चाहिए और शरीर से वह कम से कम ऊपर बताई गई दूरी पर होना चाहिए।

डेटा या संदेश भोजने के लिए बढ़िया नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार का कनेक्शन उपलब्ध न होने तक भेजने के काम में देरी हो सकती है। जब तक भेजने का काम पूरा न हो, तब तक अलग रखने की दूरी से जुड़े निर्देशों का पालन करें।

सामान्य उपयोग के दौरान SAR मान ऊपर बताए गए मानों से काफी हद तक नीचे होते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि सिस्टम की कार्यक्षमता कायम रखने और नेटवर्क पर व्यवधान कम करने के लिए, आपके मोबाइल डवाइस की ऑपरेटिंग पावर कॉल के लिए पूरी पावर की जरूरत न होने पर अपने आप कम हो जाती है। पावर आउटपुट जतिना कम होगा, SAR मान भी उतना ही कम होगा।

डवाइस के मॉडल के अनुसार अलग-अलग संस्करण और एक से अधिक मान हो सकते हैं। समय के साथ पुरजों और डज़िज़न में बदलाव हो सकते हैं और कुछ बदलावों से SAR के मानों पर असर पड़ सकता है।

अधिक जानकारी के लिए www.sar-tick.com पर जाएं। इस बात पर ध्यान दें कि मोबाइल डवाइस तब भी ट्रांसमिट कर रहे हो सकते हैं जब आपका कोई वॉइस कॉल नहीं कर रहे हों।

वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया है कि मौजूदा वैज्ञानिक जानकारी इस बात का संकेत नहीं देती है कि मोबाइल डवाइस का उपयोग करते समय किसी भी प्रकार की विशेष सतर्कता अपनाने की आवश्यकता पड़े। अगर आप एक्सपोजर कम करना चाहते/चाहती हैं, तो वे सुझाव देते हैं कि आप अपना उपयोग सीमित करें या फरि डवाइस को अपने सरि या शरीर से दूर रखने के लिए हैड्स-फ्री कटि का उपयोग करें। RF एक्सपोजर के बारे में अधिक जानकारी, व्याख्या और चर्चा के लिए WHO की वेबसाइट पर www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1 जाएं।

कृपया डवाइस के अधिकतम SAR मान के लिए www.hmd.com/sar देखें।

डजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में

इस डवाइस का उपयोग करते समय सभी कानूनों का पालन करें और स्थानीय कस्टम और कॉपीराइट सहित दूसरों की गोपनीयता और वैध अधिकारों का सम्मान करें। कॉपीराइट सुरक्षा आपको फोटो, संगीत और दूसरी सामग्री कॉपी करने, संशोधित करने या स्थानांतरित करने से रोक सकती है।

कॉपीराइट और अन्य नोटिस

कॉपीराइट और अन्य नोटिस

इस मार्गदर्शिका में वर्णित कुछ उत्पादों, सुविधाओं, अनुप्रयोगों और सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती है और इसके लिए सक्रियण, साइन अप, नेटवर्क और/या इंटरनेट कनेक्टिविटी और एक उपयुक्त सर्विस प्लान की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए, अपने डीलर या अपने सेवा

प्रदाता से संपर्क करें. इस डेटाबेस में ऐसी वस्तुएं, प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर समाहित हो सकते हैं, जो यूएस तथा अन्य देशों के नरियात कानून और वनियमों के अधीन हो सकते हैं. कानून के वरिद्ध वचिलन पर प्रतबंध है.

इस दस्तावेज़ की सामग्री "यथारूप" प्रदान की गई है. जब तक लागू कानून द्वारा आवश्यक न हो, इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या सामग्री के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी वॉरंटी, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, नहीं दी जाती, जसिमें वाणज्यिकता और किसी खास प्रयोजन के लिए उपयुक्तता से संबंधित नहिति वॉरंटियां भी शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमति नहीं है. HMD Global इस दस्तावेज़ में संशोधन करने और बना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, किसी भी परस्थितिमें HMD Global या उसका कोई लाइसेंसकर्ता किसी भी कारण से होने वाले डेटा या आय की हानि या वशिष्ट, आकस्मिक, परणामी या अप्रत्यक्ष हानियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे.

HMD Global की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से या इसकी संपूर्ण सामग्री के पुनरुत्पादन, हस्तांतरण या वितरण पर प्रतबंध है. HMD Global नरितर विकास की नीति पर काम करता है. HMD Global बना किसी पूर्व सूचना के इस दस्तावेज़ में वर्णित किसी भी उत्पाद में परिवर्तन और सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

HMD Global आपके डेटाबेस के साथ प्रदान किए गए तृतीय-पक्ष ऐप्स की कार्यात्मकता, सामग्री या अंतमि-उपयोगकर्ता समर्थन का न तो कोई प्रतनिधित्व करता है, न कोई वॉरंटी प्रदान करता और न ही इनकी ज़िम्मेदारी लेता है. इस ऐप का उपयोग करके, आप स्वीकार करते हैं कि ऐप यथारूप प्रदान किया गया है.

मानचित्र, गेम्स, संगीत और वीडियो डाउनलोड करने और छवियां व वीडियो अपलोड करने में डेटा की बड़ी मात्रा खर्च हो सकती है. आपका सेवा प्रदाता आपसे डेटा ट्रांसमिशन का शुल्क ले सकता है. वशिष्ट उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता क्षेत्र-दर-क्षेत्र अलग-अलग हो सकती है. अतिरिक्त वितरण और भाषा विकल्पों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें.

कुछ सुविधाएं, कार्यात्मकता और उत्पाद वितरण नेटवर्क आधारित हो सकते हैं और उन पर अतिरिक्त नियम, शर्तें और शुल्क लागू हो सकते हैं.

प्रदान किए गए सभी वनिरिदेश, सुविधाएँ और अन्य उत्पाद जानकारी बना किसी सूचना के परिवर्तित की जा सकती है.

<http://www.hmd.com/privacy> पर उपलब्ध HMD Global की गोपनीयता नीति आपके द्वारा किए जाने वाले इस डेटाबेस के उपयोग पर लागू होती है.

HMD Global Oy फ़ोन और टैबलेट के Nokia ब्रांड का एकमात्र लाइसेंसधारक है. Nokia, Nokia Corporation का पंजीकृत ट्रेडमार्क है.

Android, Google और अन्य संबंधित चिह्न और लोगो Google LLC के ट्रेडमार्क हैं.

ब्लूटूथ के शब्द चिह्न और लोगो पर Bluetooth SIG, Inc. का स्वामित्व है और HMD Global द्वारा ऐसे चिह्नों का किसी भी प्रकार का उपयोग लाइसेंस के अधीन किया जाता है.